



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 1979/आषाढ़ 13, 1901

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 1979/ASADHA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1979

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 433(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 53.01/05 के उपशीर्ष (2) के अंतर्गत आने वाले अपरिष्कृत ऊन और ऊन के टाप, को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के उक्त भाग से छूट देती है जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 154/का० सं० 355/ए/4/78-टी भार यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th July 1979

CUSTOMS

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts wool raw & wool tops falling under sub-heading (2) of Heading No. 52.01/05 of the

333 GI/79

First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent. *ad valorem*.

[No. 154/F. No. 335/A/4/78 TRU]

सा० का० नि० 434(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 240-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्न-लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क के उक्त भाग से जो मूल्यानुसार बीस प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है" शब्दों के स्थान पर, "उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त सीमा-शुल्क से छूट देती है" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 155/का० सं० 335/ए/4/78 टीभारयू]

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 240—Customs, dated 2nd Aug. 1976, namely:—

(905)

In the said notification, for the words "so much of that portion of the duty of customs which is specified in the said First Schedule as is in excess of twenty per cent: *ad valorem*", the words "the whole of the duty of customs which is specified in the said First Schedule" shall be substituted.

[No 155/F. No 355/A/4/78-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० का० नि० 435 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विनियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचनाओं में, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधन या और संशोधन किये जाएंगे।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	274/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1976	उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में, "2.00 प्रतिशत मूल्यानुसार" "2.50 प्रतिशत मूल्यानुसार" "4.00 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "6.00 प्रतिशत मूल्यानुसार", अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "4.00 प्रतिशत मूल्यानुसार," "5.00 प्रतिशत मूल्यानुसार," "8.00 प्रतिशत मूल्यानुसार", और "10.00 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
2.	168/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	"पाँच रुपये प्रति किलोग्राम", शब्दों के स्थान पर "सात रूपय पचास पैसे प्रति किलोग्राम" शब्द रखे जाएंगे।

[223/79 का० सं० 335/ग/4/78-टी आर यू]
टी० आर० रुस्तगी, प्रवर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 435(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	274/76-Central Excises, dated the 13th Nov. 1976.	In the Table annexed to the said notification, for the figurs and words, "2.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", "2.50 per cent. <i>ad valorem</i> ", "4.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", and "6.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", the figurs and words "4.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", "5.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", "8.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", and "10.00 per cent. <i>ad valorem</i> ", shall respectively be substituted.
2.	168/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.	For the words "rupees five per kilogram", the words "rupees seven and paise fifty per kilogram" shall be substituted.

[223/79 F.No.335/A/4/78-TRU]
T. R. RUSTAGI, Under Secy.